

**रफ़ीक़** अरुण, मेरे दिली दोस्त ! तुम यहाँ लखनऊ की तंग गलियों में क्या कर रहे हो ?

**अरुण** एक मित्र के साथ कुछ काम कर रहा हूँ; हमारी एक पुस्तक निकल रही है।

**रफ़ीक़** तो क्या तुम आजकल लखनऊ में ठहर रहे हो ?

**अरुण** नहीं नहीं, अभी तो दिल्ली में अपने भाई के यहाँ रह रहा हूँ।

**रफ़ीक़** तुम्हारा अपना मकान नहीं है, दिल्ली में ?

**अरुण** नहीं है; पर मैं अभी सोच रहा था कि मुझे नया घर चाहिए। प्रकाश के तीन बच्चे हैं; वे मुझे बहुत तंग करते हैं।

**रफ़ीक़** हाँ, तुम तो परेशान दिख रहे हो। अभी तुम्हें कोई ख़ास तकलीफ़ है ?

**अरुण** थोड़ी-सी थकान है, और कुछ नहीं।

**रफ़ीक़** तो मेरे साथ चाय पियो । चलो, राम साहब के यहाँ चलते हैं।

**अरुण** नहीं, मुझे देर हो रही है – विलंब हो रहा है; देखो, मेरे मित्र प्रेम अभी आ रहे हैं।

**Rafiq** Aruᅇ mere dilī dost. tum yahāñ lakhnaū kī taᅇ galiyoᅇ meᅇ kyā kar rahe ho?

**Aruᅇ** ek mitr ke sāth kuᅇh kāᅇ kar rahā hūñ; hamārī ek pustak nikal rahī hai.

**Rafiq** to kyā tum āckal lakhnaū meᅇ ᅇahar rahe ho?

**Aruᅇ** nahīᅇ nahīᅇ, abhī to dillī meᅇ apne bhāī ke yahāñ rah rahā hūñ.

**Rafiq** tumhārā apnā makān nahīn hai, dillī meᅇ?

**Aruᅇ** nahī hai; par maiᅇ abhī soᅇ rahā thā ki mucche nayā ghar ᅇāhie. Prakāᅇh ke tīn baᅇᅇe haiᅇ; ve mucche bahut taᅇh karte haiᅇ.

**Rafiq** hāñ, tum to pareᅇān dikh rahe ho. abhī tumheᅇ koī qhās taklīf hai?

**Aruᅇ** thoᅇī-sī thkān hai, aur kuᅇh nahīn.

**Rafiq** to mere sāth ᅇāy piyo. ᅇalo, rām sāhab ke yahāñ ᅇalte haiᅇ.

**Aruᅇ** nahīᅇ, mucche der ho rahi hai - bilaᅇb ho rahā hai; dekho, mere mitr prem abhī ā rahe haiᅇ.

1- Metnin gramatik analizi yapılarak metin içinde geçen kelimeleri öğrenmek.